



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 27-11-2020

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2020-11-27 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2020-11-28	2020-11-29	2020-11-30	2020-12-01	2020-12-02
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	25.0	26.0	26.0	25.0	24.0
न्यूनतम तापमान(से.)	5.0	6.0	6.0	6.0	5.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	75	80	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	35	35	35	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8.0	6.0	6.0	4.0	4.0
पवन दिशा (डिग्री)	340	320	320	320	320
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

विगत सात दिनों (20 - 26 नवम्बर , 2020) में 0.0 मिमी वर्षा होने व आसमान साफ रहा व कहीं-कहीं आंशिक बादल छाये रहे। अधिकतम तापमान 23.0 से 26.0 डि०से० एवं न्यूनतम तापमान 5.5 से 11.9 डि०से० के बीच रहा तथा वायु में सुबह 0712 बजे सापेक्षित आर्द्रता 86 से 95 प्रतिशत व दोपहर 1412 बजे सापेक्षित आर्द्रता 35 से 46 प्रतिशत एवं हवा 0.5 से 3.1 कि०मी० प्रति घंटा की गति से मुख्यतः पश्चिम-उत्तर-पश्चिम से चली। आगामी पांच दिनों में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 24.0 से 26.0 व 5.0 से 6.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

### सामान्य सलाहकार:

कोविड 19 को फैलने से रोकने हेतु, कृषि कार्य के दौरान भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की कोई सम्भावना नहीं है। किसान भाई, गेहूँ की बुवाई पूर्ण करें।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
अरहर (लाल चना/अरहर)	अरहर की कटाई करें।
लहसुन	लहसुन की फसल में निराई गुड़ाई एवं सिचाई करें।
गेहूँ	गेहूँ की सिंचित दशा में समय से बुवाई हेतु प्रजातियों की बुवाई पूर्ण करें। बीज दर 100 किग्रा/है० रखें।
टमाटर	जिनकी फसले 1 माह की है वो यूरिया की पहली टॉप ड्रेसिंग करे व जिनकी फसले दो माह की होने वाली है वे यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग करें।

**बागवानी विशिष्ट सलाह:**

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	फूल गोभी में हल्की सिंचाई करें। मध्यकालीन गोभी के फूलों की तोड़ाई कर बाजार भेजें।
पपीता	पपीता, आम एवं लीची के नये रोपित पौधों को पाले से बचाने हेतु सूखी घास-फूस एकत्रित कर लें ताकि इन पौधों को पाले से बचाने हेतु 15 दिसम्बर एवं उसके बाद कवर किया जा सके।

**पशुपालन विशिष्ट सलाह:**

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	इस बदलते मौसम में नवजात पशुओं में निमोनिया की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए पशुओं की आवास व्यवस्था को सुदृढ़ करें व आहार में गर्म चीजें दें।